



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 10—फरवरी 16, 2007 (माघ 21, 1928)

No. 6]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 10—FEBRUARY 16, 2007 (MAGHA 21, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of  
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 17 जनवरी 2007

सं. ए.60011/8/05आर.टी.आई.सैल(प्रशा.)--आयोग कार्यालय में संयुक्त सचिवों के स्तर पर स्थानांतरण/तैनाती तथा कार्य के पुनःआबंटन के परिणामस्वरूप सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए विषयों से संबंधित सूचना के बारे में एतद्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामोद्घिष्ट किया जाता है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष नं.	विषय वस्तु
1	2	3	4	5
1	सर्व श्री सुश्री नीता प्रसाद	संयुक्त सचिव (नियुक्ति)	23385883	पदोन्नति द्वारा नियुक्ति तथा प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा नियुक्ति से संबंधित सभी मामले।

1	2	3	4	5
2	सुश्री कल्पना राजसिंहोत	संयुक्त सचिव (भर्ती)	23385090	भ.(स.एवं नी.), उम्मीदवारों को सूचना, संवीक्षा अनुभाग (भ. I, भ. II) भ. III, भ. IV, भ. V, भ. VI, तथा प. सु. शाखा तथा सलाहकार कक्ष, पैनल तथा डाटा बैंक, प्रोग्राम यूनिट से संबंधित सभी मामले।
3	श्री एम. पी. तंगिराला	संयुक्त सचिव (अ.भा.से.)	23073413	राज्य सेवा अधिकारियों को अ. भा. से. में शामिल करने से संबंधित सभी मामले।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

### प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. ए-4/12/2005--प्रवर्तन निदेशक, एतद्वारा पुलिस, आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निम्नलिखित निरीक्षकों/अधीक्षकों/नयाचार(प्रोटोकाल) अधिकारियों को रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीखों से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा आगामी आदेशों तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्व/श्री	
1.	निर्मल कुमार	6.06.06
2.	धीरेन बरोट	13.07.06
3.	क्लेरेंस डी. मैन्नेज़िज़	15.06.06
4.	एस. रमेश	28.06.06
5.	अरूण कुमार	2.08.06
6.	अनिल कपूर	1.08.06 (पूर्वाह्न)
7.	एम.बी. परमार	18.05.06
8.	रजिन्द्र सिंह मन्कू	11.09.06 (पूर्वाह्न)

वाई.पी. सिंह  
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-4/12/2005--प्रवर्तन निदेशक एतद्वारा इस निदेशालय के निम्नलिखित सहायकों को, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में

उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीखों से अथवा आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	श्री/श्रीमती	
1.	के.सी. भौमिक	20.10.06 (अपराह्न)
2.	बी. मलिक	23.10.06
3.	एस.बी. मोरे	20.10.06 (पूर्वाह्न)
4.	मंजीत चतरथ	20.10.06
5.	दिलीप यादव	20.10.06
6.	कला मेघानी	20.10.06 (पूर्वाह्न)

वाई.पी. सिंह  
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-4/12/2005--प्रवर्तन निदेशक, एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निम्नलिखित अधीक्षकों/आयकर अधिकारियों को रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीखों से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री ए.पी. बान्देकर	5.6.06
2.	श्री एम.बी. द्विवेदी	13.6.06
3.	श्री कबीर दास	28.6.06
4.	श्रीमती ज्योति आर. शर्मा	13.6.06

वाई.पी. सिंह  
उप निदेशक (प्रशा.)

## केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जनवरी 2007

सं. डीपी/पर्स. 1/2007/0019/3/58/2002--श्री एम.पी. गुप्ता, भ.पु.सेवा (ए एंड एम: 1995), पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो की सेवाएं, प्रत्यावर्तन पर, 01.12.2006 अपराह्न से असम सरकार को सौंप दी गई हैं।

अनुराग  
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. डीपी/पर्स. 1/2007/0020/3/3/2007--राष्ट्रपति, श्री अनिल पाल्ट, भा.पु.सेवा (झारखंड : 1990) को 22.01.2007 पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 21.01.2012 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस उपमहानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

अनुराग  
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. डीपी/पर्स. 1/2007/0021/3/42/92--राष्ट्रपति, श्री एस. देवेन्द्रन, लोक अभियोजक, के.अ.ब्यूरो को 03.01.2007 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के.अ.ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

सुरेन्द्र मोहन  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 जनवरी 2007

सं.-पी.तीन-2/2007-कार्मिक-3--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप निम्नलिखित ने सरकारी सेवा से प्रत्येक के सामने लिखे गये कार्यालय में दर्शाई गयी तिथियों को संयुक्त सहायक निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी को कार्यभार त्याग कर दिया है :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहां कार्यभार संभाला	कार्यभार त्याग करने की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री एस. एस. श्याम, संयुक्त सहायक निदेशक (लेखा) (इरला सं. 4280)	वेतन एवं लेखा कार्यालय, महानिदेशालय, के.रि.पु. बल, नई दिल्ली	31/12/2006 (अपराह्न)
2.	श्री वी. एम. मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी इरला संख्या-5418	ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल, लखनऊ	30/11/2006 (अपराह्न)

के. के. शिवा प्रसाद  
अ.पु.उप.महा.  
(कार्मिक-3)

## समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-03, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. ए-12012/1/स.नि./2006-प्रशा. II--इस निदेशालय के निम्नलिखित अतिरिक्त सहायक निदेशकों को सहायक निदेशक के पद पर 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में उनके नामों के आगे दर्शाई गयी तिथियों के अनुसार पदोन्नत किया जाता है।

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री वी. एस. पंवार	14.11.2006
2.	श्री विद्याधर	01.12.2006
3.	श्री के. टी. पिल्लई	18.12.2006

कमलेश डेका, निदेशक  
पुलिस दूरसंचार

## महानिदेशालय

## केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. ई-16015/प्रतिनियुक्ति/06/कार्मिक-2/58--के.ओ.सुब के निम्नलिखित कमाण्डेंट/उप कमाण्डेंट ने उनके नाम के सामने दिये गये पदों पर/विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए उनका चयन होने के फलस्वरूप नीचे दिये गये अनुसार अपने संबंधित पदों/यूनिटों का कार्यभार छोड़ दिया है।

अधिकारी का नाम एवं पद	इकाई	कार्यभार छोड़ने की तिथि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	प्रतिनियुक्ति का विभाग	पद	प्रतिनियुक्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
श्री एल ए के एन सहदेव, कमाण्डेंट	आर टी सी बड़वाहा	11-12-06 अपराह्न	18-12-06 पूर्वाह्न	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली	परामर्शदाता	प्रारम्भिक अवधि एक साल एवं अधिकतम तीन साल
रतन सिंह, उप कमाण्डेंट	आई जी आई एयरपोर्ट नई दिल्ली	18-12-06 अपराह्न	19-12-06 पूर्वाह्न	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली	सहायक निबंधक (विधि)	तीन साल (साल दर साल)

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड (स्थानीय लेखा शाखा) राँची  
दिनांक, 19 जनवरी 2007

सं. एल.ए.एडमिन। इस्ट। प्रो. स.ले.प.अ. से ले.प.अ.  
95--महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखंड, राँची ने स्थानीय लेखा  
परीक्षा शाखा के श्री सैयद जिया नैयर शाहाबी, सहायक लेखा परीक्षा  
अधिकारी को दिनांक 02.01.2007 (पू.) से अगले आदेश तक लेखा  
परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में  
प्रोन्नति दी है -

ह./- अपठनीय  
स्थानीय लेखा परीक्षक  
झारखंड

सं. एल.ए.एडमिन। इस्ट। प्रो. अ.प.अ. से स.प.अ./97--महालेखाकार  
(लेखा परीक्षा) झारखंड ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के निम्नलिखित  
लेखा परीक्षा अधिकारियों को दिनांक 02/01/07(पू.) से अगले आदेश

तक सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 8,000-275-13,500/-  
के वेतनमान में प्रोन्नति दी है।

क्र. सं.	नाम
1.	श्री गिरिश चन्द्र मिश्रा
2.	श्री मोईनउद्दीन अंसारी

ह./- अपठनीय  
स्थानीय लेखा परीक्षक  
झारखंड

सं. एल.ए.एडमिन। इस्ट। प्रो. अ.प.अ./97--महालेखाकार (लेखा  
परीक्षा) झारखंड ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के निम्नलिखित लेखा  
परीक्षा अधिकारियों को दिनांक 02/01/07(पू.) से अगले आदेश तक  
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 7,450-225-11,500/-  
के वेतनमान में प्रोन्नति दी है।

1	2
1. श्री योगेश कुमार झा	
2. श्री विकास कुमार	
ह./- अपठनीय स्थानीय लेखा परीक्षक झारखंड	

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, केन्द्रीय, कोलकाता

कोलकाता-1, दिनांक 24 जनवरी 2007

सं. गोपनीय/सी/538/2007/213(18)--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता निम्न लेखापरीक्षा अधिकारियों को वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थायी और स्थानापन्न के रूप में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में 2.01.2007 (पूर्वाह्न) (1 जनवरी 2007 छुट्टी होने के कारण) या उस तिथि से जिस तिथि को वे वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	अनुभाग/स्कंध
(सर्वश्री/श्रीमती)		
1.	स्नेहाशीष मुखर्जी	सी ई आर ए
2.	संजय कुमार - I	आई टी आर ए
3.	गौरंगा मजूमदार	सी ई आर ए
4.	शंभुनाथ मंडल	आई टी आर ए
5.	सोमेन्द्रनाथ दे	सी ई आर ए
6.	सुबीर कुमार पाल	ओ ए डी
7.	रुद्र प्रसाद चट्टोपाध्याय	आई टी आर ए

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा. सं. 1.10.89 स्था (वेतन-1) दिनांक 30.8.89 यथा समय संशोधित के अंतर्गत एफ आर 22(I) (ए) (1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनके पारस्परिक वरीयता प्रशासन द्वारा बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह./- अपठनीय  
निदेशक/प्रशासन

सं. गोपनीय/सी/470-II/2007/214(16)--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता निम्न सहा. लेखापरीक्षा अधिकारियों को लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थाई एवं स्थानापन्न रु. 7,500-250-12,000/- के

वेतनमान में 2.01.2007 (पूर्वाह्न) (1 जनवरी छुट्टी होने के कारण) से या उनके लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	अनुभाग/स्कंध
(सर्व श्री/श्रीमती)		
1.	अमित दत्ता	आई टी आर ए
2.	शुभंकर चक्रवर्ती	ओ ए डी
3.	तापस घोष	आई टी आर ए
4.	समीर कुमार भर	सी ई आर ए
5.	सरमीन्दा सेन	आई टी आर ए
6.	सोमेन्द्र कुमार शरण	सी आर ए डी
7.	रीनी दत्ता	आई टी आर ए
8.	शुभोजीत सेन	ओ ए डी

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

सभी अधिकारियों को भविष्य में शाखा कार्यालय ए एन आई पोर्ट ब्लेयर में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरण की नियत तिथि सहित पदस्थापन आदेश बाद में दिया जाएगा।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा. सं. 1.10.89 स्था (वेतन-1) दिनांक 30.8.89 यथा समय संशोधित के अनुसार एफ आर 22(I) (ए) (1) के अंतर्गत वेतन नियतन हेतु एक महीने के अंदर विकल्प दे सकते हैं।

उनकी परस्पर वरीयता बाद में नियत की जाएगी।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

सं. गोपनीय/सी/ए ए ओ/2007/215(18)--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय), कोलकाता निम्न अनुभाग अधिकारी को सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थाई एवं स्थानापन्न रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में 2.01.2007 (पूर्वाह्न) से (1 जनवरी 2007 छुट्टी होने के कारण) या उनके सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	अनुभाग/स्कंध
1	2	3
सर्वश्री		
1.	चंदना चक्रवर्ती	आई टी आर ए
2.	प्रदीप विश्वास	ओ ए डी
3.	सी. एस. अनुप	शाखा कार्यालय ए. एन. आई

## भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 17 जनवरी 2007

सं. पीडी/11(1)/2006-आर-III/2007/739--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री संदीप एस. देवकर, प्रवर श्रेणी लिपिक, को दिनांक 06.11.2006 (पूर्वाह्न) से 13.12.2006 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन  
उप स्थापना अधिकारी

-----

सं. पीडी/6(2)/2007-आर-III/2007/741--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री आर.पी.एस. राव, सहायक, पञ्चि सचिवालय, मुंबई को दिनांक 02.01.2007 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में भापअ केन्द्र, मुंबई में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन  
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 18 जनवरी 2007

सं. पीडी/13(5)/98-आर-III/खण्ड II/2007/771--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इस अनुसंधान केन्द्र के श्री ई. एस. शशी, सहायक कार्मिक अधिकारी, को दिनांक 10.01.2007 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में प्रशासनिक अधिकारी-II के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. 6(2449)/2007-प्रशा./113--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड की अधिकारी श्रीमती लतिका आर. गोयल (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500) को दिनांक 8 जनवरी 2007 को पूर्वाह्न से, कार्यकाल के आधार पर चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, उसी विभाग, में रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी  
अवर सचिव

1	2	3
4.	अनंत कुमार तीवरी	ओ ए डी
5.	जया बसु सरकार	ओ ए डी
6.	देबब्रत घोष हाजरा	गोपनीय
7.	भोला कांति नाथ	ई डी पी
8.	संतोष कुमार	आर ए ओ/एफ बी पी

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्त्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा. सं. 1.10.89 स्था (वेतन-1) दिनांक 30.8.89 यथा समय संशोधित के अनुसार एफ आर 22(1) (ए) (1) के अंतर्गत वेतन नियतन हेतु एक महीने के अंदर विकल्प दे सकते हैं।

उनकी परस्पर वरीयता बाद में नियत की जाएगी।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2007

सं. ए.19020/8/2006-प्रशासन-1--गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दिनांक 25.10.2006 के कार्यालय आदेश सं. 5/3/2005-रा.भा.(से.) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 15 नवम्बर, 2006 के कार्यालय आदेश सं. 65011/23/2006-पी-I के अनुसरण में श्रीमती प्रवेश सेठी ने 7,500-250-12,000/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में तदर्थ आधार पर दिनांक 16.11.2006 (पूर्वाह्न) से इस निदेशालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. के. डीगरा  
उप निदेशक प्रशासन (ए के जी)

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(दूरसंचार विभाग, बेतार अनुश्रवण संघटन)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. ए-32012/2/03-प्रशा.(पार्ट)/272--भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बेतार सलाहकार एतद्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन के लेखाकार, श्री राम अयोध्या प्रसाद को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन में दिनांक 18.01.2007 से 17.3.2007 तक दो माह की अवधि या जब तक कथित पद पर कोई उम्मीदवार नियमित तौर पर नियुक्त नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी "ख", राजपत्रित) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

एस. सी. हाजरा  
उप निदेशक  
कृते बेतार सलाहकार

सं./6(2449)/2007-प्रशा/106--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई की उपस्थापना अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200) श्रीमती लतिका आर. गोयल को दिनांक 8 जनवरी 2007 को पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग, में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500) के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी  
अवर सचिव

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 22 जनवरी 2007

सं. सासेसं/17(27)/2005-भ/78--निदेशक, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम श्री एन. सुब्रमणि, सहायक लेखा अधिकारी, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम को दिनांक 02.01.2007 से 02.02.2007 की प्रभावी तक रु. 7,500-250-12,000 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर उसी इकाई में लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

टी.वाई. प्रह्लाद राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. सासेसं/17(27)/2005-भ/79--निदेशक, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम श्री आर. चक्रपाणि, सहायक लेखाकार, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम को दिनांक 02.01.2007 से 02.02.2007 की प्रभावी तक रु. 7,450-225-11,500 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर उसी इकाई में लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

टी.वाई. प्रह्लाद राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 22 जनवरी 2007

सं. राराप्रौके/प्रशा-2006/भ-805(फ)/53.--भारत के राष्ट्रपति एतद द्वारा श्री रमेश चन्द्र, वैज्ञानिक सहायक/डी (वेतनमान रु. 7,450-225-11,500) को दिनांक 01 फरवरी 2006 की पूर्वाह्न से वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर रु. 8,000-275-13,500 के वेतनमान में आगामी आदेशों तक राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

डी.एस. राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 22 जनवरी 2007

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)--कोटा/2007/107.--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, श्री कजाकनचेरी रामकृष्ण अय्यर रामचंद्रन, सहायक, भाभा

परमाणु अनुसंधान केन्द्र को दिनांक 16 नवम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक भापासं (कोटा) में रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

एन.जे. सयमन  
प्रशासन अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

फरीदाबाद, दिनांक 16 जनवरी 2007

सं. 3-1584/2006-वैज्ञा.स्था./304.--विभागीय प्रोन्नति समिति समूह (ख, 'राजपत्रित') की सिफारिशों पर श्री राजन सिंह वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जल मौसमविज्ञानक) को रु. 7,500-250-12,000/- सहायक जल मौसमविज्ञानक रुपये प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान पर सहायक जल मौसमविज्ञानक के पद पर अस्थाई आधार पर दिनांक 20.12.2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नत कर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र जयपुर में तैनात किया जाता है।

वे कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के स्वेच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

एस.के.सिन्हा  
निदेशक(प्रशासन)

सं. 3-1585/07-ईजी स्था.-32--विभागीय पदोन्नति केमेटी की सिफारिश से समूह-ख (राजपत्रित) (तकनीकी) श्री पी.सामराज को दिनांक 02.01.07 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में प्रभारी वेधक के पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह-ख) (राजपत्रित) वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

एस.के. सिन्हा  
निदेशक प्रशासन

दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. 3-1586/07-ईजी स्था.-52--विभागीय पदोन्नति केमेटी की सिफारिश से समूह-ख (राजपत्रित) (तकनीकी) श्री बलबीर सिंह को दिनांक 04.12.07 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में प्रभारी वेधक के पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह-ख) (राजपत्रित) वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

एस.के. सिन्हा  
निदेशक प्रशासन

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 16 जनवरी 2007

सं.एफ.301-एडी (एटी)/2006--श्रीमती रीट पॉल, आशुलिपिक, मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, जयपुर को कार्मिक,

लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठें, कोलकाता में, रु. 6,500-200-10,500/-के वेतनमान में दिनांक 23.10.2006 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थापनापन रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विमल गाँधी  
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मारवाड़ लैण्ड डवलपमेन्ट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर दिनांक 18 जनवरी 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15726/56--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मै. मारवाड़ लैण्ड डवलपमेन्ट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी.सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मान होटल्स एण्ड मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

सं.-आर.ओ.सी./560/2631/2019--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मान होटल्स एण्ड मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स न्युजडे कम्प्यूनीकेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में।

मुंबई-400002, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. 34640/560/28/14113--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस

तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स न्युजडे कम्प्यूनीकेशन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

पी. के. गायचोर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स तीर्थकर फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

मुंबई-400002, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. 92291/560/22/4116--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तीर्थकर फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

पी. के. गायचोर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सरला रीयल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

मुंबई-400002, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. 99292/560/16/4119--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सरला रीयल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

पी. के. गायचोर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स हुक इंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

मुंबई-400002, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. 95621/560/14/4122--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हुक इंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

पी. के. गायचोर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एच. एण्ड बी. सर्विसेज लिमिटेड के सम्बन्ध में।

मुंबई-400002, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. 145775/560/30/4125--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस

तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एच. एण्ड बी. सर्विसेज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

पी. के. गायचौर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 17th January 2007

No. A-6011/8/2005-RTI Cell (Admn.).—Consequent upon the transfer/posting and reallocation of the work at the level of Joint Secretaries in the Commission's Offices and in terms of Section 5 (2) of the Right to Information Act, 2005, the following Officers of the Union Public Service Commission are hereby designated as Central Public Information Officers in respect of the subject matters mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Telephone No.	Subject matter
1.	Ms. Neeta Prasad	Joint Secretary (Appt.)	23385883	All Matters pertaining to appointments by promotion and appointments by deputation/absorption.
2.	Ms. Kalpana Rajsinghot	Joint Secretary (R)	23385090	All matters pertaining to R(C&P), IFC, Scrutiny Section (R-I, R-II, R-III, R-IV, R-V, R-VI), and ER Branch and also the work of Advisers' Cell, Panel & Data Bank, Programme Unit.
3.	Sh. M. P. Tangirala	JS (AIS)	23073413	All matters pertaining to induction of State Services Officers to All India Services.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

## DIRECTORATE OF ENFORCEMENT

New Delhi-110 003, the 29th January 2007

No. A/12/2005.—Director of Enforcement, hereby appoints the following Inspectors/Superintendents/Protocol officer of Police, Income Tax & Central Excise as Enforcement Officers on deputation basis in the pay scale of Rs. 7,500-200-12,000/- w.e.f. the dates indicated against their names for the period of three years or until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of joining
1.	S/Shri Nirmal Kumar	06.06.06
2.	Dhiren Barot	13.07.06
3.	Clarence D. Menezes	15.06.06
4.	S. Ramesh	28.06.06
5.	Arun Kumar	02.08.06
6.	Anil Kapoor	01.08.06 (FN)
7.	M. B. Parmar	18.05.06
8.	Rajinder Singh Manku	11.09.06 (FN)

Y. P. SINGH  
Dy. Director (Admn.)

No. A-4/12/2005.—Director of Enforcement, hereby appoints the following Assistants of this Directorate to officiate as Superintendents on promotion in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the dates indicated against their names or until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of joining
1.	S/Shri K. C. Bhowmick	20.10.06 (AN)
2.	B. Malik	23.10.06
3.	S. B. More	20.10.06 (FN)
4.	Smt. Manjit Chatrath	20.10.06
5.	D. K. Yadav	20.10.06
6.	Smt. Kala Meghani	20.10.06

Y. P. SINGH  
Dy. Director (Admn.)

No. A-4/12/2005.—Director of Enforcement, hereby appoints the following Superintendents of Central Excise/Income Tax officers as Chief Enforcement Officers on deputation basis in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/-

w.e.f. the dates indicated against their names for the period of three years or until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of joining
	S/Shri	
1.	A. P. Bandekar	05.06.06
2.	M. B. Dwivedi	13.06.06
3.	Kabeer Dass	28.06.06
4.	Smt. Jyoti R. Sharma	13.06.06

Y. P. SINGH  
Dy. Director (Admn.)

#### CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 24th January 2007

No. DP/Pers. I/2006/0019/3/58/2002.—Services of Shri M. P. Gupta, IPS (AM : 1995), Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation, have been placed at the disposal of Govt. of Assam with effect from the afternoon of 01.12.2006 on repatriation.

ANURAG  
Supdt. of Police (Pers.)

The 25th January 2007

No. DP/Pers. I/2007/0020/3/3/2007.—The President is pleased to appoint Shri Anil Palta, IPS (JH : 1990), as Deputy Inspector General of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the forenoon of 22.01.2007 for a period of five years i.e. upto 21.01.2012 or until further orders, whichever is earlier.

ANURAG  
Supdt. of Police (Pers.)

New Delhi-110 003, the 25th January 2007

No. DP/Pers. I/2007/0021/3/42/92.—The President is pleased to appoint Shri S. Devendran, Public Prosecutor, CBI as Sr. Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 03.01.2007 and until further orders.

SURINDER MOHAN  
Admin. Officer (Pers.)

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS DIRECTORATE GENERAL CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110 003, the 17th January 2007

No. O. II-3713/06-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Akash Laxmanrao Narde as Medical Officer in

Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 1.12.2006 till further order. He is posted to Composite Hospital, CRPF, Nagpur (Maharashtra).

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers-I)

The 18th January 2007

No. O. II. 3714/06-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Monica Paul as Medical Officer in Central Reserve Police force in temporary capacity from the forenoon of 26.12.06 till further order. She is posted to 83 Bn. CRPF.

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers-I)

New Delhi-110 003, the 22nd January 2007

No. P. III-2/2007-Pers-3.—Consequent on their retirement from the Government service on attaining the age of superannuation, the following have relinquished the charge as Joint. Asstt. Director/Administrative Officer in the Offices as mentioned against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office in which Posted	Date of handling over charge
1.	Shri S. S. Shyam, Jt. Asstt. Director (Accts) (IRLA-4280)	Pay & Accounts Office, Dte, General, CRPF, New Delhi	31.12.2006 (AN)
2.	Shri B. M. Mishra, Administrative Officer (IRLA-5418)	Group Centre, CRPF, Lucknow	30.11.2006 (AN)

K. K. SIVA PRASAD  
Addl. DIGP (Pers-III)

#### DIRECTORATE OF COORDINATION (POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 19th January 2007

No. A. 12012/1/AD/2006-Admn. II.—The following Extra Assistant Directors of this Directorate have been promoted to the post of Assistant Director in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- with effect from the date mentioned against their names :—

1.	Shri V. S. Panwar	14.11.2006
2.	Shri Vidyadhar	01.12.2006
3.	Shri K. T. Pillai	18.12.2006

KAMALESH DEKA  
Director Police Telecommunications

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 19th January 2007

No. E-16015/Dep/06/Pers. II/58.—Consequent upon their selection for appointment in the posts/Deptt. as mentioned against their names on deputation basis, the following Commandant/Dy. Commandant, CISF have relinquished the charge from their respective posts/Units as mentioned below :—

Sl. No.	Name of the officer and Rank	Unit	Date of relinquishment of the charge	Date of Assumption of deputation post	Deputation to the Deptt.	Post	Period of deputation
1.	S/Shri LAKN Sahdeo	RTC Barwaha	11.12.06 (AN)	18.12.06 (FN)	National Institute of Disaster Management, New Delhi	Consultant	Initially for a period of one year extended subject to maximum of three years
2.	Ratan Singh	IGI Airport	18.12.06 (AN)	19.12.06 (FN)	National Human Rights Commission, New Delhi	Asstt. Registrar (Law)	Three years on yearly basis

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)  
JHARKHAND (LOCAL UNIT WING)

Ranchi, the 19th January 2007

No. L. A./Admn. I/Estt. I/Promo. AO/95.—The Accountant General (Audit), Jharkhand, Ranchi has been pleased to promote Shri Syed Zia Naiyar Shahabi, Assistant Audit Officers of Local Audit Wing to officiate as Audit Officer in the same wing in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 02.01.07 (F/N).

Sd/- ILLEGIBLE  
Examiner of Local Accounts

No. L. A./Admn. I/Estt. I/Promo. Sr.AO/96.—The Accountant General (Audit) Jharkhand Ranchi has been pleased to promote following Audit Officers of Local Audit Wing to officiate as Sr. Audit Officers in the same wing in the pay scale of Rs. 8,000-275,13,500/- with effect from 02.01.07 (F/N).

Sl. No.	Name
1.	Shri Girish Chandra Mishra
2.	Shri Moinuddin Ansari

Sd/- ILLEGIBLE  
Examiner of Local Accounts

No. L. A./Admn. I/Estt. I/Promo. AAO/97.—The Accountant General (Audit) Jharkhand Ranchi has been pleased to promote following Section Officers of Local Audit Wing to officiate as Asstt. Audit Officers in the same wing in the pay scale of Rs. 7,450-225,11,500/- with effect from 02.01.07 (F/N).

Sl. No.	Name
1.	Shri Yogesh Kumar Jha
2.	Shri Vikas Kumar

Sd/- ILLEGIBLE  
Examiner of Local Accounts

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT :  
CENTRAL KOLKATA

Kolkata-700 001, the 24th January 2007

No. Confdl/C/538/2007/213(18).—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following Audit Officers as Senior Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 02.01.2007 (F. N.) (1st January, 2007 being the holiday) or from the date from which they take over charge as Senior Audit Officer whichever is later.

Sl. No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1.	Snehasish Mukherjee	CERA
2.	Sanjoy Kumar-I	ITRA
3.	Gouranga Majumder	CERA
4.	Sambhunath Mondal	ITRA
5.	Somendranath Dey	CERA
6.	Subir Kr. Pal	OAD
7.	Rudra Prasad Chattopadhyay	ITRA

They are directed to report for duty to their respective Group Officers.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 (I)(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed by Administration in due course.

N. MUNSHI  
Director (Admn.)

No. Confdl/C/470-II/2007/214(16).—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following Asstt. Audit Officers as Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 02.01.2007 (F. N.) (1st January, 2007 being the holiday) or from the date from which they take over charge as Audit Officer whichever is later.

Sl. No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1.	Amit Dutta	ITRA
2.	Suvankar Chakraborty	OAD
3.	Tapash Ghosh	ITRA
4.	Samir Kumar Bhar	CERA
5.	Sarmishtha Sen	ITRA
6.	Somendra Kumar Sharan	CRAD
7.	Rini Dutta	ITRA
8.	Subhajit Sen	OAD

They are directed to report for duty to their respective Group Officers.

All the officials as above will be transferred to the Branch Office at ANI/Port Blair in due course. Posting orders with specific date of transfer will follow.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 (I)(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed by Administration in due course.

N. MUNSHI  
Director (Admn.)

No. Confdl/C/AAO/2007/215(18).—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following Section Officers as Assistant Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 02.01.2007 (F. N.) (1st January, 2007 being the holiday) or from the date from which they take over charge as Assistant Audit Officer whichever is later.

Sl. No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1.	Chandana Chakraborty	ITRA
2.	Pradip Biswas	OAD
3.	C. S. Anup	Branch office at ANI
4.	Anant Kr. Tiwari	OAD
5.	Jaya Basu Sarkar	OAD
6.	Debabrata Ghosh Hazra	CONFIDENTIAL
7.	Bhola Kanti Nath	EDP
8.	Santosh Kumar	RAO/FBP

They are directed to report for duty to their respective Group Officers.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 (I)(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed by Administration in due course.

N. MUNSHI  
Director (Admn.)

#### DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 22nd January 2007

No. A-19020/8/2006-Admn.-I.—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language's Officer

Order No. 5/3/2005-OL (S) dated 25.10.2006 and Ministry of Environment & Forest's Office Order F. No. 65011/23/2006-P. I dated 15th November, 2006, Smt. Parvesh Sethi has joined as Assistant Director (OL) on ad hoc basis in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in this Directorate w.e.f. 16.11.2006 (Forenoon).

A. K. DHINGRA  
Dy. Director Admn. (AKD)

---

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION  
TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

WIRELESS MONITORING ORGANISATION

New Delhi-110 062, the 19th January 2007

No. A-32012/2/03-Admn. (Pt.)/272.—The Wireless Adviser to the Government of India, Ministry of Communications & IT., Department of Telecommunications, hereby permits Shri Ram Ayodhya Prasad, Accountant of this Organisation to continue to officiate as Administrative Officer (Group B Gazetted) on ad hoc basis in the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications & I.T., Department of Telecommunications, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- for a further period of 2 months with effect from 18.01.2007 to 17.03.2007 or till a regular candidate is appointed to the said post, whichever is earlier.

S. C. HAZRA  
Dy. Director  
for Wireles Adviser

---

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400 085, the 17th January 2007

No. PD/11(1)/2006-R-III/2007/739.—Controller, Bhabha Atomic Research appoints Shri Sandeep S. Deokar, Upper Division Clerk, as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from 06.11.2006 (FN) to 13.12.2006 (AN).

D. DASARATHAN  
Dy. Establishment Officer

No. PD/6(2)/2007-R-III/2007/741.—Controller, BARC appoints Shri R. P. S. Rao, Assistant, DAE Secretariat, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- at BARC, Mumbai with effect from the forenoon of 2nd January, 2007 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN  
Dy. Establishment Officer

The 18th January 2007

No. PD/13(5)/98-R-III/Vol. II/2007/771.—Controller, BARC appoints Shri E. S. Sasi, Assistant Personnel Officer of this Research Centre to officiate as Administrative Officer-II in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in this Research Centre itself w.e.f. the forenoon of 10th January, 2007 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN  
Dy. Establishment Officer

---

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 19th January 2007

No. 6(2449)/2007/Adm./103.—The President is pleased to appoint Smt. Lathika R. Goel, an Officer in the grade of Chief Administrative Officer (scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-), DAE Mumbai as Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12,000-375,16,500/- in the same Department with effect from the forenoon of January 8, 2007, on tenure basis for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

P. P. MADHAVAN KUTTY  
Under Secy.

No. 6(2449)/2007/Adm./106.—The President is pleased to appoint Smt. Lathika R. Goel, Deputy Establishment Officer (scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-), BARC, Mumbai to the grade of Chief Administrative Officer (scale of pay of Rs. 12,000-325-16,500/-) in the Department of Atomic Energy with effect from the forenoon of January 8, 2007, until further orders.

P. P. MADHAVAN KUTTY  
Under Secy.

---

GENERAL SERVICES ORGANISATION

Kalpakkam-603 102, the 22nd January 2007

No. GSO/17(27)/2005-R/78.—The Director, GSO appoints Shri N. Subramani, Assistant Accounts Officer of General Services Organisation, Kalpakkam as Accounts Officer on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- w.e.f. 02.01.2007 to 02.02.2007 in the same unit.

T. Y. PRAHALAD RAO  
Chief Administrative Officer

No. GSO/17(27)/2005-R/79.—The Director, GSO appoints Shri R. Chakrapani, Assistant Accountant of General Services Organisation, Kalpakkam as Assistant Accounts Officer on

ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- w.e.f. 02.01.2007 to 02.02.2007 in the same unit.

T. Y. PRAHALAD RAO  
Chief Administrative Officer

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED  
TECHNOLOGY

Indore-452 013, the 22nd January 2007

No. RRCAT/2006-Admn./R-805 (F)/53.—The President is pleased to appoint Shri Ramesh Chandra, Scientific Assistant/D (Scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/-) on promotion to the grade of Scientific Officer/C in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 01.02.2006 in an officiating capacity in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

D. S. RAO  
Chief Administrative Officer

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, the 22nd January 2007

No. HWB/R/1(8)-K/2007/107.—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Kzakanberry Ramakrishna Iyer Ramachandran, Assistant, BARC, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in Heavy Water Plant (Kota) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- from the forenoon of 16th November 2006 until further orders.

N. J. SIMON  
Administrative Officer

MINISTRY OF WATER RESOURCES  
CENTRAL GROUND WATER BOARD

NH-IV, Faridabad, the 16th January 2007

No. 3-1584/2006/Sci. Estt/304.—On the recommendations of the DPC (Group-B Gazetted), Sh. Rajan Singh, STA (Hydrometeorology) has been promoted to the post of Assistant Hydrometeorologist in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity from the date shown as under :

Sl. No.	Name of Officer	Place of Posting	Date of Joining
1.	Shri Rajan Singh	CGWB, WR, Jaipur	20.12.2006 (F.N.)

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

S. K. SINHA  
Director (Admn.)

No. 3-1585/07-Engg. (Estt.)/311.—On the recommendations of the DPC Group-B (Gazetted) (Technical) Shri P. Samaraj is appointed to the post of Driller-in-Charge GCS Group-B (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in Central Ground Water Board on temporary basis w.e.f. 02.01.07 (FN).

S. K. SINHA  
Director (Administration)

The 19th January 2007

No. 3-1586/07-Engg. (Estt.)/418.—On the recommendations of the DPC Group-B (Gazetted) (Technical) Shri Balbir Singh is appointed to the post of Driller-in-Charge GCS Group-B (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in Central Ground Water Board on temporary basis w.e.f. 04.12.07 (FN).

S. K. SINHA  
Director (Administration)

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400 020, the 16th January 2007

No. F. 301-Ad (AT)/2006.—Smt. Rita Paul, Stenographer of O/o The Chief Commissioner of Income-Tax (Central), Jaipur is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Kolkata Benches, Kolkata in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 23.10.2006 (F. N.) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Deptt. of Personnel & Training) O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI  
President

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Marwar Land Development Limited

Jaipur, the 18th January 2007

No. ROC/JPR/560/15726/56—Notice is hereby given in pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Marwar Land Development Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Man Hotels and Motels Private Limited

Jaipur, the 31st October 2006

No. ROC/JPR/560/2631/2019.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Man Hotels and Motels Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sharla Realtors Private Limited

Mumbai-400 002, the 19th January 2007

No. 99292/560/16/4119.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Sharla Realtors Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

P. K. GAICHOR  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Newsday Communications Limited

Mumbai-400 002, the 19th January 2007

No. 34640/560/28/4113.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Newsday Communications Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

P. K. GAICHOR  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hook Entertainment Private Limited

Mumbai-400 002, the 19th January 2007

No. 95621/560/14/4122.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Hook Entertainment Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

P. K. GAICHOR  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tirthankar Finance and Investments Private Limited

Mumbai-400 002, the 19th January 2007

No. 92291/560/22/4116.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Tirthankar Finance and Investments Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

P. K. GAICHOR  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. H & B Services Limited

Mumbai-400 002, the 19th January 2007

No. 145775/560/30/4125.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. H & B Services Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

P. K. GAICHOR  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra